Hemisphere Properties India Limited CIN: U70101DL2005GOI132162 Reg. Office Address: Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi 110001

HPIL/BS/Stx/2020-21/25

To, Manager, Listing Department BSE Limited, P.J. Towers, Dalal Street Mumbai: 400 001 Dated: 10.02.2021

To, Manager Listing Department National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Plot No. C/1,G Block, Bandra Complex, Bandra (E), Mumbai -400 051

Script Code: 543242 Symbol: HEMIPROP

Sub.: Unaudited Quarterly Financial Results - Newspaper Advertisement

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III and Regulation 47 of SEBI Listing Regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed the copies of the advertisement published in English and regional (Hindi) newspapers for the unaudited financial Results of the quarter ended 31st December 2020 duly approved by the Board in its meeting held on 09th February 2021.

This for your information & records.

Thanking you,

For Hemisphere Properties India Limited

Lubna Company Secretary & Compliance Officer

16

FINANCIAL EXPRESS

For the nine months

ended

31.12.2020 31.12.2019

(unaudited)

0

(15.81)

(15.81)

(11.70)

(11.70)

5

0

(23.40)

(23.40)

(unaudited)

(186.53)

(186.53)

(138.03)

(138.03)

28500

0

(0.05)

(0.05)

(₹ in Lakhs

For the

year ended

31.03.2020

(audited)

0

(102.17)

(102.17)

(75.74)

(75.74)

28500

0

(0.03)

(0.03)




PGIM India Asset Management Private Limited (Erstwhile DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited) 2rd Floor, Nirlon House, Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai - 400 030. Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100 CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446 Website: www.pgimindiamf.com

NOTICE CUM ADDENDUM (No. 42 of 2020-21)

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENTS ("SIDs") AND KEY INFORMATION MEMORANDUMS ("KIMs") OF SCHEMES OF PGIM INDIA MUTUAL FUND ("THE MUTUAL FUND")

Investors are requested to note that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 05, 2020, PGIM India Asset Management Private Limited has evaluated the risk levels for the schemes of the Mutual Fund based on the scheme portfolios as on January 31, 2021. Accordingly, risk-o-meters of the following schemes of PGIM India Mutual Fund have been revised as follow:-



time to time. All the other terms and conditions of SIDs and KIMs of the Schemes of the Mutual Fund except as specifically modified herein above remain unchanged.

> For PGIM India Asset Management Private Limited (Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place: Mumbai Date : February 9, 2021

Authorized Signatory

Sd/-

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

The Indian EXPRESS OF COURAGE

Particulars

Total Income from operations (Net)

Net Profit/(Loss) from ordinary

Net Profit/(Loss) from ordinary

Net Profit/(Loss) from ordinary

Activities before Tax (after Exceptional

Activities after Tax (after Exceptional

Total Comprehensive income after

taxes and Non-controlling Interest Paid up Equity Share Capital

Reserves excluding Revaluation

Reserve as per Balance sheet of previous accounting year

Earnings per share (from continuing and discontinuing operations)

Activities before Tax (before

Exceptional items)

items)

items)

Basic Diluted

Notes:

Place: New Delhi

Date: February 09, 2021

interpresson

look at every side before taking a side.

or the Indian Intelligent.

lie Indian Express.

ntiorm your opinion with insightful observations.



1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 09.02.2021

Comparative figures have been regrouped / recasted/ rearranged wherever deemed necessary to confirm to current period classification and negative figures have been shown in bracket.

Hemisphere Properties India Limited

CIN: U70101DL2005GOI132162

Reg. Office Address: Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi 110001

EXTRACTS OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON DECEMBER 31, 2020

For the quarter ended

31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019

(unaudited)

0

(38.57)

(38.57)

(28.54)

(28.54)

28500

0

(0.01)

(0.01)

(unaudited)

0

(44.53)

(44.53)

(32.95)

(32.95)

28500

0

(0.01)

(0.01)

(unaudited)

(4.82)

(4.82)

(3.57)

(3.57)

5

0

(7.13)

(7.13)

The above is an extract of the detailed format of guarter and nine months ended on December 31, 2020 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com/www.nseindia.com) and Company's website (www.hpil.co.in)

For and on behalf of Hemisphere Properties India Limited

Sd/ (D. Thara) Chairperson & Managing Director

CHALET HOTELS CHALET HOTELS LIMITED Regd off: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G', Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai 400 051 CIN: L55101MH1986PLC038538, Email ID: investorrelations@chalethotels.com, website: www.chalethotels.com EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2020 (Rs. in million CONSOLIDATED Particulars Quarter ended Nine months ended Year ended 31 December 30 September 31 December 31 December 31 December 31 March 2020 2020 2019 2020 2019 2020 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 916.02 641.14 2,847.27 2,146.56 7,713.98 10,090.25 Total Income Earnings before interest, depreciation, amortisation

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.



PUBLIC ANNOUNCEMENT

SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED

Our Bank was originally incorporated as Survoday Micro Finance Private Limited at Chennai, Tamil Nadu, as a private limited company under the Companies Act, 1956 pursuant to the certificate of incorporation dated November 10, 2008 issued by the Assistant Registrar of Companies, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands at Chennai. Subsequently, our Bank was converted into a public limited company and the name of our Bank was changed to Suryoday Micro Finance Limited, and a fresh certificate of incorporation dated June 16, 2015 was issued by the RoC. Our Bank was granted the in-principle and final approval to establish a small finance bank ("SFB") by the RBI, pursuant to its letters dated October 7, 2015 and August 26, 2016, respectively. Pursuant to our Bank being established as an SFB, the name of our Bank was changed to Suryoday Small Finance Bank Limited and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on January 13, 2017. Our Bank commenced its business with effect from January 23, 2017 and was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated July 24, 2017 issued by the RBI and published in the Gazette of India on September 2, 2017. For further details, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 173 of the Draft Red Herring Prospectus ("DRHP")

Registered and Corporate Office: Unit No. 1101, Sharda Terraces, Plot No. 65, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai 400 614, Maharashtra, India; Tel: +91 22 4043 5800; Website: www.suryodaybank.com; Contact Person: Geeta Krishnan, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: company.secretary@suryodaybank.com; Corporate Identity Number: U65923MH2008PLC261472

ADDENDUM DATED FEBRUARY 8, 2021 TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED SEPTEMBER 30, 2020: NOTICE TO INVESTORS (THE "ADDENDUM")

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 20,061,796 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION (THE "ISSUE") COMPRISING A FRESH TO ₹[•] MILLION ("THE OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO 4,387,888 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, UP TO 1,615,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY GAJA CAPITAL FUND II LIMITED, UP TO 889,842 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY DWM (INTERNATIONAL) MAURITIUS LTD, UP TO 750,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ?[•] MILLION BY HDFC HOLDINGS LIMITED, UP TO 250,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ?[•] MILLION BY IDFC FIRST BANK LIMITED, UP TO 200,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ?[•] MILLION BY AMERICORP VENTURES LIMITED, UP TO 186,966 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ?[+] MILLION BY KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, UP TO 100,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ?[+] MILLION BY POLARIS BANYAN HOLDING PRIVATE LIMITED AND UP TO 85,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO RO INILLION BY GAJA CAPITAL INDIA AIF TRUST (REPRESENTED BY ITS TRUSTEE, GAJA TRUSTEE) COMPANY PRIVATE LIMITED) (COLLECTIVELY, REFEERRED TO AS THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS"), UP TO 2,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY APNEET KAHLON AND UP TO 100 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO TO * MILLION BY CHINTAN HARKANTBHAI TRIVEDI (COLLECTIVELY, REFERRED TO AS THE "INDIVIDUAL SELLING SHAREHOLDERS" TOGETHER WITH INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS, THE "SELLING SHAREHOLDERS", AND SUCH EQUITY SHARES THE "OFFERED SHARES").

Potential Bidders may note the following:

- The section titled, "Our Business" beginning on page 137 of the Draft Red Herring Prospectus, has been updated to reflect the key updates of the business of the Bank post the filing of the Draft Red a. Herring Prospectus, Please note that all other details in and updates to the section titled, "Our Business" will be carried out in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges
- h. The Draft Red Herring Prospectus currently includes details of the Restated Financial Statements as at and for the financial years ended March 31, 2020, 2019 and 2018. Given that the Restated Financial Statements included in the Draft Red Herring Prospectus relates to a period prior to COVID-19, the section titled "Restated Financial Statements" beginning on page 219 of the Draft Red Herring. Prospectus has been updated to provide the updated financials of the Bank, restated in accordance with the SEBI ICDR Regulations, as at and for the financial years ended March 31, 2020, 2019 and 2018 and nine month periods ended December 31, 2020 and December 31, 2019.
- C. The Draft Red Herring Prospectus currently includes certain financial measures and certain other statistical information relating to Bank's operations and financial performance for the financial years ended March 31, 2020, 2019 and 2018. Given that the financial measures and other statistical information included in the Draft Red Herring Prospectus relates to a period prior to COVID-19, the section titled "Selected Statistical Information" beginning on page 201 of the Draft Red Herring Prospectus has been updated to provide updated financial measures and certain other statistical information as at and for the nine month period ended December 31, 2020 and comparative information for the nine month period ended December 31, 2019, as applicable.

Potential Bidders may note that in order to assist the Bidders to get an understanding of the updated information, the relevant portion of the section titled "Our Business" and the sections titled "Selected" Statistical Information" and "Restated Financial Information" of the Draft Red Herring Prospectus have been included in this Addendum. The above changes are to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus and accordingly their references in the Draft Red Herring Prospectus stand amended pursuant to this Addendum. The information in this Addendum supplements the Draft Red Herring Prospectus and updates the information in the Draft Red Herring Prospectus, as applicable. Please note that the information included in the Draft Red Herring Prospectus will be suitably updated, including to the extent stated in this Addendum, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges. Investors should read the Red Herring Prospectus as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges before making an investment decision in the Issue. All capitalised terms used in this Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act and referred to in the Draft Red Herring Prospectus as "U.S. QIBs") in transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act and (b) outside the United States in compliance with Regulation S and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. For the avoidance of doubt, the term "U.S. QIBs" does not refer to a category of institutional investors defined under applicable Indian regulations and referred to in the Draft Red Herring Prospectus as "QIBs" Disclaimer clause of RBI: Alicense authorising the Bank to carry on small finance bank business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of section 22 of the Banking Regulation Act. 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license the Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.

	31 December 3	30 September	31December	31 December	31 December	31 March
Particulars	Contract of the second s	uarter ended	Carl Carl Carl Carl Carl	Nine mont		Year ended
Notes: 1) Key numbers of Standalone Financial Result	ts				and the second sec	. in million)
Diluted (*not annualised) (in Rs.)	*(1.51)	*(2.08)	*1.62	*(5.52)	*2.92	5.01
Basic (*not annualised) (in Rs.)	*(1.51)	*(2.08)	*1.62	*(5.52)	*2.92	5.01
Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)	1.00000-00	3532-5533		00000000		10:27530
Other Equity	100	35	17	100	10	13,495.27
(Face value of Rs. 10 per share)	2,050.24	2,050.24	2,050.24	2,050.24	2,050.24	2,050.24
Paid up Equity Share Capital	ocasto poetă	10000000000		24201010000		10000000-0.0
period / year	(310.00)	(424.09)	330.75	(1,130.60)	568.73	984.99
Total Comprehensive Income / (Expense) for the	200200	00		55 July 102		
(Loss) / Profit for the period / year	(310.28)	(427.48)	332.67	(1,131.44)	574.48	996.26
(Loss) / Profit before income tax	(509.80)	(671.01)	554.74	(1,885.18)	959.69	1,008.48
(Loss) / Profit before exceptional items and tax	(499.21)	(660.43)	566.65	(1,853.63)	996.87	1,050.19
and tax (EBITDA) before exceptional items	169.40	29.73	1,188.83	202.10	2,909.91	3,645.12

T articulars	31 December 2020 Unaudited	30 September 2020 Unaudited	31December 2019 Unaudited	2020	31 December 2019 Unaudited	31 March 2020 Audited
Total Income	871.89			the second se	Contraction of the local data	10.037.68
(Loss) / Profit before income tax	(469.77)	100 10 1000 10	1000 CO. 000000	Part Andrew Director		828.41
(Loss) / Profit for the period / year	(269.37)	(357.50)	333.86	(950.00)	577.80	816.14

The above is an extract of the detailed format of guarterly and nine months ended 31 December 2020 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2020 are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.chalethotels.com.

2) The above unaudited results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 9 February 2021.

) The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. For Chalet Hotels Limited

Place : Mumbai Date : 9 February 2021

Sanjay Sethi Managing Director & CEO (DIN. 00641243)






HDFC Asset Management Company Limited A Joint Venture with Standard Life Investments CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 Fax: 022 22821144 • e-mail: cliser@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT(S) (SIDs) / KEY INFORMATION MEMORANDUM(S) (KIMs) OF SCHEME(S) OF HDFC MUTUAL FUND

NOTICE is hereby given that in compliance with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 05, 2020, the Risk-o-meters of the below mentioned Schemes of HDFC Mutual Fund (the Fund) stand revised as under:




	BOOK RUNNING LEAD MANAGERS TO THE ISSUE					
AXIS CAPITAL	<i>Vicici</i> Securities	IIFL SECURITIES	C State	K FINTECH		
Axis Capital Limited 1" floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli Mumbai 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: suryoday.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Investor Grievance ID: complaints@axiscap.in Contact Person: Mayuri Arya SEBI Registration Number: INM000012029	ICICI Securities Limited ICICI Centre, H. T. Parekh Marg Churchgate, Mumbai 400 020 Maharashtra, India Tel: +91 22 2288 2460 E-mail: suryoday.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com Contact Person: Rishi Tiwari/ Nidhi Wangnoo SEBI Registration Number: INM000011179	IIFL Securities Limited 10" Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013 Maharashtra, India Tel: +91 22 4646 4600 E-mail: suryoday.ipo@iiflcap.com Website: www.iiflcap.com Investor Grievance ID: ig.ib@iiflcap.com Contact Person: Ujjaval Kumar/ Vishal Bangard SEBI Registration Number: INM000010940	SBI Capital Markets Limited 202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade Mumbai 400 005, Maharashtra, India Tel: +91 22 2217 8300 E-mail: suryoday.ipo@sbicaps.com Website: www.sbicaps.com Investor Grievance ID: investor.relations@sbicaps.com Contact Person: Sambit Rath/ Janardhan Wagle SEBI Registration Number: INM000003531	Kfin Technologies Private Limited (formerly known as Karvy Fintech Private Limited) Selenium, Tower B, Plot No 31 and 32 Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: suryodayasfb.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com Investor grievance ID: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration Number: INR000000221		
lace: Navi Mumbai late: February 9, 2021				Suryoday Small Finance Bank Limited Sd/ Geeta Krishnar any Secretary and Compliance Office		
in initial public offering of its Equity Shan vebsite of SEBI at www.sebi.gov.in, web Capital Limited, ICICI Securities Limited Bidders should note that investment in ec hould not rely on the DRHP or the Adden the Equity Shares have not been and will may not be offered or sold within the Unit aws. Accordingly, the Equity Shares are Securities Act, "Rule 144A") in transaction	es and has filed the DRHP and Addendu sites of the Stock Exchanges i.e. BSE a , IIFL Securities Limited and SBI Capita juity shares involves a high degree of risk dum filed with SEBI for making any invest not be registered under the U.S. Securiti ed States, except pursuant to an exempt only being offered and sold (i) within the ns exempt from, or not subject to, registra	m with SEBI on September 30, 2020 and nd NSE at www.bseindia.com and www I Markets Limited at www.axiscapital.co and for details relating to the same, plea timent decision. les Act of 1933, as amended (the "Secur tion from, or in a transaction not subject United States only to persons reasonal ation requirements of the Securities Act, a	, receipt of requisite approvals, market con d February 8, 2021, respectively. The DRH inseindia.com, respectively, and is availab in, www.icicisecurities.com, www.iificap. ise see the section entitled ' <i>Risk Factors</i> ' of ities Act'') or any other applicable law of the to, the registration requirements of the Sec oly believed to be 'qualified institutional but and (ii) outside the United States in offshor e will be no public offering of the Equity Sha	P and the Addendum are available on the le on the websites of the BRLMs i.e. Axis com and www.sbicaps.com, respectively on page 21 of the DRHP. Potential Bidders e United States and, unless so registered curities Act and applicable state securities avers" (as defined in Rule 144A under the e transactions in reliance on Regulation \$		







Adfactors 869





Place: New Delhi

Date: February 08, 2021

UNIBEV

GLOBUS SPIRITS LIMITED CIN: L74899DL1993PLC052177

REGISTERED OFFICE : F-0, GROUND FLOOR, THE MIRA CORPORATE SUITES, PLOT NO.1&2, ISHWAR NAGAR, MATHURA ROAD, NEW DELHI-110065

Tel. No.: 011 66424600, Fax - 011 66424629, E mail : corpoffice@globusgroup.in, Website: www.globusspirits.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

			Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended Nine Mon Ended 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.		Quarte	r Ended	Nine Months Ended				
	31.12.2020 30.09.	30.09.2020	0 31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2020	31.12.2019		
SI.No.	Particulars	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1.	Total income from operations (including excise duties)	43,003.89	45,731.56	1,17,802.02	96,471.12	43,346.88	46,014.82	1,18,647.22	97,294.82	
2.	Earning before Interest, Depreciation & Taxes (EBIDTA)	7,034.37	6,591.10	17,780.35	9,893.93	6,840.53	6,342.44	17,200.88	9,153.40	
3.	Net Profit /(Loss) for the period (before tax, after Exceptional and/or Extraordinary item)	5,559.24	5,108.84	13,362.86	5,210.05	5,361.08	4,855.80	12,770.24	4,468.30	
4.	Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	4,028.64	3,572.70	9,611.91	3,776.39	3,829.88	3,319.65	9,018.69	3,034.64	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,017.65	3,561.71	9,578.92	3,782.26	3,818.89	3,308.67	8,985.70	3,040.51	
6.	Equity share capital (Face Value of Rs.10/- per share)	2,879.93	2,879.93	2,879.93	2,879.93	2,879.93	2,879.93	2,879.93	2,879.93	
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserves) as per Balance Sheet									
8.	Earning per share (EPS) of Rs 10/- each									
	a) Basic	13.99	12.41	33.38	13.11	13.27	11.54	31.32	10.59	
	b) Diluted	13.99	12.41	33.38	13.11	13.27	11.54	31.32	10.59	

Note : 1. The company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") from 1st April, 2017 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34" Interim Financial Reporting", prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under and the other accounting principles generally accepted in India. 2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended and Nine months ended December 31, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the Stock Exchanges websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.globusspirits.com). For and on behalf of the Board of

PESERVE



NAPOLEON

Directors of Globus Spirits Limited

Ajay K. Swarup Managing Director



Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana NEXT DATE: 19-03-2021 CNR NO: PBLD03-048523-2018

wort date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana Vs Kotak Mahindra Bank Kailash Chand

Notice To, Kailash Chand S/o Not Known R/o 2 112 Harijan Basti New Rohtak Road, Anand Parbat Delhi whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused// ccused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-03-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice &district=ludhiana

(Rs. in Lakhs)

JMIC Ludhiana

इन्टेक कैपिटल लिमिटेड

पणि सुदाता का प्रकाशत विनीय परिसम्पनियों के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्निर्माण तबा प्रतिभुति हित

प्रवर्तन अधिगियम, 2002 की शारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

। मैं नियांग्र आंटो (ऋषधारक) द्वार उसके भांपाइटर क्री क्रीनिकार, प्लांट रं ७१, ज्यु

एकएएउआई आईडीपी, कुटांग, फिसर रोड तेफरक, फरिमम्मा-124001, साथ झे: 254, वर्ड

मं 33, राज मोइल्ला कह्य मंडी, ल्लिमनर क्रेष्ठ के निकट, ठेइठक, इल्प्मिमा-124001, 2)

जी जीनिवाए (गरन्टर) 254, वार्ड नं 33, उज मोकस्ता कट पंडी, स्तिमनर केष्ठ के

रिकट, तेन्द्रक, इरिसण-124001, 3 ग्रीपती पंतील (गरचर) 254, वार्ड र 33, तज

मोइत्ला काट पंडी, रिलमना क्रेज़ के निकट, तेइतक, इरिमामा-124001) को स्मीड भोग्ट

ਬਿਸ਼ਬ: इरेक ਕੈਸਿਟਰ ਰਿਸਿਟੇਡ ਸੇ ਬਦਾ ਬਾਗ ਨੇ LNR OH00214-150005071 ਰਿਪਿ

अप ने ऋम को वापल लौटाने में चुक की है तथा इसीलिने इन्टेक कैपिटल लिपिटेड के

प्रबंधित आपकी ऋगखताओं को ३१ ३ २०१३ को गैर-प्रचालन भरितम्परि (एनभीए) बोमित विस्मा स्मा है तथा ३१ १२ २०२० को त. ३२.९७.१११/- (तस्मे बतीत लाख जिम्मनबे हवार

इन्टेक कैपिटल लि. ने 2301 2021 को अधिन्मिम के अंतर्गत एकना तित्रि 20 01 2021

जरी कर आधको ३१ १२ २०२० को त ३२.९६.१११/- (तपमे वतील लाह हिमानवे इजार

अभ्यको निर्देश दिमा जाता है कि इस सुचान की लिति से 60 दिनों के भीतर त 32.96.111/-

(उभ्ये बहीस ताछ हिमानवे क्रार एक सी मात्क पाठ) की रहि का भुगतन करें जिसमें

विफल होने पर इन्ट्रेक कैपिटल लिपिटेड महां नीके अनुसूची में ही नई प्रतिभूत परिसम्मत्तिमो

के विरुद्ध प्रतिभूत फिर के अवर्तन के अपने किसी भी अधिकारों का प्रमोग करने के लिमे

बाध्य होग। यह एकना इन्ट्रेक कैपिटल लिंको उपलब्ध किसी अल्प अधिकार्त के प्रति

परिसम्पहिमों किएमें असमूहि फिल निर्मित है, का विशिष्ट विवरण रीचे वर्णित है

हाइपो बेकेटेड परिसमलियों: 1) मैं निमंत अंटो. फॉट नं 67. म् एक्एर अईअईडीजी.

कुटान, फिएर रोड, तेफतक, इत्यामा-124001 में संस्थापित ग्रीएनग्री मुस्टिसंत टर्निंग

द्वारा 23 1 2021 को बेजी पई मांग एकन हिंबि 2001 2021

एक ही ग्यारह पाठ) की तुलि जपह लौटाने का निर्देश दिया।

एक ही ग्यारह माड) की तड़ि अकाम है।

29112014

प्रवांगक रुकित के।

पञ्चीन मिडाए G

Rfil: 9 2 202 1

त्थानः क् दिल्ली

अनुसूचीः

Criminal Courts, Ludhiana Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Sh. Gurdarshan Singh JMIC

NEXT DATE: 19-03-2021 Ludhiana CNR NO: PBLD03-048537-2015 next date, purpose of case orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Vs Anoop Gupta

Notice To, Anoop Gupta S/o Ashok Gupta R/o 715 K-block, Mangolpuri New Delhi,

whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused! accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-03-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice &district=ludhiana

JMIC Ludhiana

In The Court Of Sh Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana NEXT DATE: 19-03-2021 CNR NO: PBLD03-048498-2018 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Vs Kapil Sharma Notice To, Kapil Sharma C/o Oss Cargo Movers R/o Hno I -284, vill Govindpuram Block- Part I Ghazibad- 201002 whereas it has proved to the satisfaction of

this court that you, the above named accused? laccused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-03-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice &district=ludhiana

JMIC Ludhiana

इन्टेक कैपिटल लिमिटेड पोंग सुचना का प्रकाशन हिलीय परिसप्पनियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिगियम, 2002 की थारा 13(2) के अंतर्गत सूचना 1. में, श्री आदिगध एम्टरसईनेन (इस्प्रधारक) करा उपके प्रॉन्ड्स्टर श्री तरुप नेप. 1/2039, गली म. 22, ई.ए. रूप मणर, साइदर, उत्तर पूर्व दिल्ली -1 100.32, 2, औ तरण जैन (गरटर), जो-39, ग्लो न, 7,न्यू पाईन झान्द्रह, दिल्लो-110032, 3, श्रीयती दिव्या जैन (गारन्टर), जो-39, पत्ने न, 7,न्यु पार्डन झान्द्रह, दिल्लो-110032) को (मोड पोएट डाह 23.12021 को भेजों गई पांग एनमा किंधि 22.01.2021 विषय: इन्टेक कमिटल लिपिटेड में झ्ला छाता ए. LNNOI03314-150005520 तिथि 313 2015 आप ने इस्प को वापए ताटाने में चुक को र तथा इप्रोतिमे इन्टेक कपिटत तिमिटेड र्षे प्रबधित आपको खुगालामओं को 31.3.2015 को ¹र - प्रचालन परिएम्पति (एनपोए) वोबिन किया गया है नथा 31.12.2020 को रु. 00.10.1907 (स्पर्य एगठ लाख दाव हजार एक प्र दियासी पाउ) को सहि उक्तपा है। इन्टेक कपिटल लि. रे 23.01.2021 को अधिनिषम के अर्मात एवन मिश्र 22.01.2021 जाहे कर आपको 31.12.2020 को रु. c0.10.18c/ (रुपमे एठ लाख दए हजार एक से छिपासे पात्र) को उठि रापए तौठने का निर्देष्ठ दिया। आपको पिर्देष्ठ दिपा जाम र कि इए एचना को मिथि ऐ co दिनों के भौमर रु 00.10.180/ (रूपमे साठ लाख टार इजार एक सौ छिमासो मात्र) को तरि क भूगमप करें जिसमें शिफल होने पर इन्टेक कैपिटल लिपिटेड मन्न गोंचे अपूस्तों में दो गई प्रतिभूत परिसम्मतियों के टीरुद्ध प्रतिभूत हिरु के प्रचर्तन के अपने किसौ भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य लेगा। यह एचना इन्ट्रेक कपिटल लि. को उपलब्ध किसी अन्य अधिकाउँ के प्रति प्रतीप्रह रहित है। अनुस्चीः परिएम्पतिमें जिएमें प्रतिभूति दित निर्पित हे, का विष्ठिष्ट विवरण जोवे वर्णित ह हाइयोथेकेटेड, पीरसमलियौं: 1) मैं, औ आदिमध एफ्टरझाईजेज, 1/2039, गलौ म, 22 ईएट राम उगर ज्ञाइटरा, उत्तर पूर्व दिल्लो - 110032 में एए-आपित पेपर कप फार्मिंग मज्जोन RTM1: 92.2021 प्राधिकृत अधिकार्र स्थानः नई दिल्लो इन्टेक कैपिटल लि \infty इण्डियन ओवरसीज बैंक मुजपफर नगर ः शाखा 246, आर्यपुरी, टाउन हॉल रोड,

मुजफ्फरनगर 251001

ail- iob0580@iob.in कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्राध्यकृत अधिकारी

इटेक कैपिटल लि

प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.



PUBLIC ANNOUNCEMENT

SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED

Our Bank was originally incorporated as Survoday Micro Finance Private Limited at Chennai, Tamil Nadu, as a private limited company under the Companies Act, 1956 pursuant to the certificate of incorporation dated November 10, 2008 issued by the Assistant Registrar of Companies, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands at Chennai. Subsequently, our Bank was converted into a public limited company and the name of our Bank was changed to Suryoday Micro Finance Limited, and a fresh certificate of incorporation dated June 16, 2015 was issued by the RoC. Our Bank was granted the in-principle and final approval to establish a small finance bank ("SFB") by the RBI, pursuant to its letters dated October 7, 2015 and August 26, 2016, respectively. Pursuant to our Bank being established as an SFB, the name of our Bank was changed to Suryoday Small Finance Bank Limited and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on January 13, 2017. Our Bank commenced its business with effect from January 23, 2017 and was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated July 24, 2017 issued by the RBI and published in the Gazette of India on September 2, 2017. For further details, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 173 of the Draft Red Herring Prospectus ("DRHP").

Registered and Corporate Office: Unit No. 1101, Sharda Terraces, Plot No. 65, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai 400 614, Maharashtra, India; Tel: +91 22 4043 5800; Website: www.suryodaybank.com; Contact Person: Geeta Krishnan, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: company.secretary@suryodaybank.com; Corporate Identity Number: U65923MH2008PLC261472

ADDENDUM DATED FEBRUARY 8, 2021 TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED SEPTEMBER 30, 2020: NOTICE TO INVESTORS (THE "ADDENDUM")

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 20,061,796 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION (THE "ISSUE") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 11,595,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO TO . MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 8,466,796 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION ("THE OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO 4,387,888 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, UP TO 1,615,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY GAJA CAPITAL FUND II LIMITED, UP TO 889,842 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY DWM (INTERNATIONAL) MAURITIUS LTD, UP TO 750,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY HDFC HOLDINGS LIMITED, UP TO 250,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY IDFC FIRST BANK LIMITED, UP TO 200,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY AMERICORP VENTURES LIMITED, UP TO 186,966 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, UP TO 100,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY POLARIS BANYAN HOLDING PRIVATE LIMITED AND UP TO 85,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY GAJA CAPITAL INDIA AIF TRUST (REPRESENTED BY ITS TRUSTEE, GAJA TRUSTEE COMPANY PRIVATE LIMITED) (COLLECTIVELY, REFEERRED TO AS THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS"), UP TO 2,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ?[•] MILLION BY APNEET KAHLON AND UP TO 100 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO 7[•] MILLION BY CHINTAN HARKANTBHAI TRIVEDI (COLLECTIVELY, REFERRED TO AS THE "INDIVIDUAL SELLING SHAREHOLDERS" TOGETHER WITH INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS, THE "SELLING SHAREHOLDERS", AND SUCH EQUITY SHARES THE "OFFERED SHARES").

Potential Bidders may note the following:

www.readwhere.com

- The section titled, "Our Business" beginning on page 137 of the Draft Red Herring Prospectus, has been updated to reflect the key updates of the business of the Bank post the filing of the Draft Red a Herring Prospectus. Please note that all other details in and updates to the section titled, "Our Business" will be carried out in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges.
- The Draft Red Herring Prospectus currently includes details of the Restated Financial Statements as at and for the financial years ended March 31, 2020, 2019 and 2018. Given that the Restated Financial Statements included in the Draft Red Herring Prospectus relates to a period prior to COVID-19, the section titled "Restated Financial Statements" beginning on page 219 of the Draft Red Herring Prospectus has been updated to provide the updated financials of the Bank, restated in accordance with the SEBI ICDR Regulations, as at and for the financial years ended March 31, 2020, 2019 and 2018 and nine month periods ended December 31, 2020 and December 31, 2019.
- The Draft Red Herring Prospectus currently includes certain financial measures and certain other statistical information relating to Bank's operations and financial performance for the financial years ended March 31, 2020, 2019 and 2018. Given that the financial measures and other statistical information included in the Draft Red Herring Prospectus relates to a period prior to COVID-19, the section titled "Selected Statistical Information" beginning on page 201 of the Draft Red Herring Prospectus has been updated to provide updated financial measures and certain other statistical information as at and for the nine month period ended December 31, 2020 and comparative information for the nine month period ended December 31, 2019, as applicable.

Potential Bidders may note that in order to assist the Bidders to get an understanding of the updated information, the relevant portion of the section titled "Our Business" and the sections titled "Selected" Statistical Information" and "Restated Financial Information" of the Draft Red Herring Prospectus have been included in this Addendum. The above changes are to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus and accordingly their references in the Draft Red Herring Prospectus stand amended pursuant to this Addendum. The information in this Addendum supplements the Draft Red Herring Prospectus and updates the information in the Draft Red Herring Prospectus, as applicable. Please note that the information included in the Draft Red Herring Prospectus will be suitably updated, including to the extent stated in this Addendum, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges. Investors should read the Red Herring Prospectus as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges before making an investment decision in the Issue. All capitalised terms used in this Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act and referred to in the Draft Red Herring Prospectus as "U.S. QIBs") in transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act and (b) outside the United States in compliance with Regulation S and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. For the avoidance of doubt, the term "U.S. QIBs" does not refer to a category of institutional investors defined under applicable Indian regulations and referred to in the Draft Red Herring Prospectus as "QIBs".

Disclaimer clause of RBI: A license authorising the Bank to carry on small finance bank business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license the Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank or for the correctness of any of the

धिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियी/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने देशाय गये खात में उनके नामों के सामने दी गई तारीखी पर नोटिस की तारीख उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साध पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा **8 फरवरी 2021** ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन समान्य रूप से वह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति। सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज बैंक, को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देव बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज , शुल्क आदि , भुगतान की तिथि तक देव राशि के साथ देव है।

ऋणकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरक्षित संपत्ति को भनाते हैं

क्र संव		बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कल्जा नोटिस क अनुसार बकाया राशि
1.	राजपाल सिंह, मकान नंबर 215, लदावाला, मुजफ्फरनगर 251001 श्रीमती जय माला देवी पत्नी श्री राजपाल सिंह, मकान नंबर 215, लदावाला, मुजफ्फरनगर 251001 श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह, मकान नंबर 215, लदावाला, मुजफ्फरनगर	आवासीय भूमि और भवन स्थित प्लॉट नंबर 37 खसरा नंबर 176 / 3 और 176 / 4, मौहल्ला रामपुरी, सेक्टर 4, परगना, तहसील और जिला मुजफफरनगर, यूपी— 251001. साइट विवरणः उत्तर— 45 फीट, दक्षिणः 45 फीट, पूर्यः 20 फीट, पश्चिमः 20 फीट। साइट की कुल क्षेत्रफलः 83.61 वर्गमीटर, स्वामिनी श्रीमती जय माला देवी पत्नी श्री राजपाल सिंह निवासी मकान संख्या 215, लदावाला मुजफफरनगर 251001, सीमायें:—उत्तर— छोटे लाल का प्लॉट नं 36, दक्षिण— योगेंद्र कुमार का प्लॉट नंबर 38, पूर्व— रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिम— योगेंद्र कुमार का प्लॉट नंबर 29	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 4,00,286.30 + अगामी व्याज (10.02.2020 से) + अन्य शुल्क	08.02.2021	रू 4,13,145.30 (08.02.2021 से) + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क
	दिनांक- 08.02.2021	स्थान- मुजफ्फरनगर		प्राधिकृत	अधिकारी

	(हिमाचल प्रदेश)-173213	CIN: L2	/101119193	SAP LC0054	562		
	31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त कि अनंकेक्षित वित्				तान एखोस	माकत	
			- 23		(ईंपीए	ल छोड़कर र	 लाखों मे
क्रम	305-95825		स्टेंडएलॉन			समेकित	
सं	हिस्तार्थ	सपाप्त तिपाही	समापा नौ पाही	सपापा तिपार्ही	समाप्त तिमाही	समाप्त नौमाही	समाप्त तिपाही
-		31.12.20.20 अनकेकित	31.12.2020 अनकेक्षित	31.12.2019 अनके क्षित	31.1 2.20 20 अनके क्षित	31.12.2020 अनकेशित	31.12.2014 अनके क्षित
1	मरिबालनी से कुल आय	6.025 A1	13.974.03	4.520.65	6.025.41	13.974.03	4 520.65
2	भारणतना ल कुत अभ अवधि के लिए शुद्ध लाभ(डानि) (कर. विशिष्ट एव/अमवा	0.025A1	15.9/4.05	4.520.05	0.025.41	15.9/4.05	4 320.03
1	असाधारण मही से मुंबे)	1.191.58	2.065.70	4\$3.63	1.242.85	2.171.45	530.52
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(ज्ञानि) (विशिष्ट						
81	एव/उम्मवा असाधारण महों के बाद)	1.191.58	2.065.70	4\$3.63	1.242.85	2.171AS	530.82
4	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (विशिष्ट एव		1570000000	1000000	5.0.5.00		
<u></u>	अमवा असाधारण मर्टो के बाट)	\$\$5.69	1.558.20	370.67	923.37	1.616.05	410.85
s	अवधि हेनु कुल व्यापक आग (अवधि हेनु (कर के बाद)	21212	101202420	100000	505686	2002.08	1989-198
	लाभ(डानि) एव अन्य व्यापक आय (कर के बाट से शामिल)	\$\$5.69	1.559.17	363.19	923.37	1.617.02	403.37
6	इतिवटी शेयर पूजी अन्य इतिवटी (पूर्व वर्ष के अकेक्षित तुलन पत्र में दक्षांई गई	765.06	769.06	769.06	765.06	769.06	769.06
<u>e</u>	अन्य कृतवदा (पूर्व वय के अकात्मत तुत्तन यत्र य उत्तक गढ़ मुनमुंत्याकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)		2	12	23	- S	157
s	अग प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (वार्षिकौकन कर्डे)						
<u></u>	क) मृतः	231	4.06	0.94	2.40	4.21	1.05
	छ) नरतः	2.31	4.06	0.94	2.40	4.21	1.05

 तिरेशक पहला ने एफवाई 2020-21 के लिये रु. 27- प्रति को सम मुल्य को इक्विटो रोयरों पर 15% अर्थानु रु. 0.30 प्रति इक्विटो रोयर के अतरिम लाभाश के भुगतान को भोषमा को है।

 उम्पर प्वाहन्ट 2 में वर्णित प्रयोगन के लिये अभिलिखत लिथि शुक्रवार. 19 फरवरी. 2021 होगी। पुनः अतरिप लाभाश कप्पनी अधिनियम. 2015 में निरिष्ट अवधि के भोतर प्रेमित को जायेगी।

 उपरोक्त चित्तीय परिणामों को अंडिट कमिले द्वारा समीक्षा को गई तमा 9 फरवरी. 2021 को आयोजित उनको संबंधित बैठकों में कम्पनी के निदेशक पडल द्वारा खोकुत किये गये। कप्पनी के साविधिक अंकेक्षकों ने इन परिणामों को सौमित समीक्षा को है तथा उस पर अ सरोधित रिपोर्ट जारी किये हैं।

	काएईजी	पंडला वे	रु लिये	तथा	उनकी	और से
						हस्ता. / -
				(एन एस	धुष्मत)
					प्रजया	तिरेशक

स्थानः नई डिल्ली	(एन.एस. घुष्पन) प्रजया निरोशक
तिथि: 09.02.2021	D IN: 00002052

	BOOK RUNNING LEAD N	IANAGERS TO THE ISSUE		REGISTRAR TO THE ISSUE
	<i>Picici</i> Securities		Sai Capital Markan	KFINTECH
Axis Capital Limited 1 ^{ef} floor, Axis House, C-2 Wadia nternational Centre, P.B. Marg, Worli Mumbai 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: suryoday.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in nvestor Grievance ID: complaints@axiscap.in Contact Person: Mayuri Arya SEBI Registration Number: NM000012029	ICICI Securities Limited ICICI Centre, H. T. Parekh Marg Churchgate, Mumbai 400 020 Maharashtra, India Tel: +91 22 2288 2460 E-mail: suryoday.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com Contact Person: Rishi Tiwari/ Nidhi Wangnoo SEBI Registration Number: INM000011179	IIFL Securities Limited 10" Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013 Maharashtra, India Tel: +91 22 4646 4600 E-mail: suryoday.ipo@iiflcap.com Website: www.iiflcap.com Investor Grievance ID: ig.ib@iiflcap.com Contact Person: Ujjaval Kumar/ Vishal Bangard SEBI Registration Number: INM000010940	SBI Capital Markets Limited 202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade Mumbai 400 005, Maharashtra, India Tel: +91 22 2217 8300 E-mail: suryoday.ipo@sbicaps.com Website: www.sbicaps.com Investor Grievance ID: investor.relations@sbicaps.com Contact Person: Sambit Rath/ Janardhan Wagle SEBI Registration Number: INM000003531	Kfin Technologies Private Limited (formerly known as Karvy Fintech Private Limited) Selenium, Tower B, Plot No 31 and 32 Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: suryodayasfb.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com Investor grievance ID: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration Number: INR000000221
n initial public offering of its Equity Share ebsite of SEBI at www.sebi.gov.in, web apital Limited, ICICI Securities Limited, dders should note that investment in eq nould not rely on the DRHP or the Addeno he Equity Shares have not been and will ay not be offered or sold within the Units ws. Accordingly, the Equity Shares are	es and has filed the DRHP and Addendu- sites of the Stock Exchanges i.e. BSE a , IIFL Securities Limited and SBI Capita uity shares involves a high degree of risk dum filed with SEBI for making any invest not be registered under the U.S. Securiti ed States, except pursuant to an exempt only being offered and sold (i) within the	m with SEBI on September 30, 2020 and nd NSE at www.bseindia.com and www. I Markets Limited at www.axiscapital.co and for details relating to the same, pleat ment decision. es Act of 1933, as amended (the "Securition from, or in a transaction not subject is United States only to persons reasonal		IP and the Addendum are available on the ole on the websites of the BRLMs i.e. Axis com and www.sbicaps.com, respectively. on page 21 of the DRHP. Potential Bidders e United States and, unless so registered, curities Act and applicable state securities uyers" (as defined in Rule 144A under the

		लेये 🛛		हीने के लिये	समापा वर्ष के लि
31.12.2020	30.09.2020	31.1 2 20 19	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
(अनकेक्षित)	(अनकेक्षित)	(अनेकेशित)	(अनेकेक्षित)	(अनेकेक्षित)	(अंकेशित)
0	0	0	0	0	Ø
(44.53)	(3857)	(4.32)	(196.53)	(15.91)	(102.17)
(44.53)	(3857)	(4.82)	(196.53)	(15.81)	(102.17)
(32.95)	(28.54)	(357)	(138.03)	(11.70)	(75.74)
(32.95)	(28.54)	(357)	(138.03)	(11.70)	(75.74)
28500	28500	S	28,500	S	28500
0	0	0	0	Ø	0
10200200	i waana	2000 A	0.0000	- measured	ast 42.715
	1013-05200	10150000	1.22 J. 10 J. 10 J.	GROUDING (1993)	(0.03)
(0.01)	(0.01)	(7.13)	(0.05)	(23.40)	(0.03)
के लिये जहां ' श्रायि गये हैं। अपेक्षा) विनिय महीने के परिण	भी जरूरी हुआ मन, 2015 के 11मों के विस्तृत	, तुलनात्मक र विनियमन ३३ 1 प्रारूप का स	आंकड़े पुनवर्गीव) के अंतर्गत स्व नार है। तिमाही	कृत/ पुनर्प्रसारित टॉक एक्सचैंजों वित्तीय परिणाग	ा ताया पुनर्व्यवस्थि में दाखिल की व नें का संपूर्ण प्रास्
					कृत्ते एवं के लि न इंडिया लिमिटे
	(अनकेक्षित) 0 (44 53) (44 53) (32,95)	(अगकेशित) (अगकेशित) 0 0 (44.53) (38.57) (44.53) (38.57) (44.53) (38.57) (32.95) (28.54) (32.95) (28.54) (32.95) (28.54) 28500 28500 0 0 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) समीक्षा की गई तथा 9.2.2027 के लिये जहां भी जरूरी हुआ श्रायि गये हैं। नपेक्षा) विनियमन, 2015 के महीने के परिणामों के विस्तृत	(अनकेक्षित) (अनकेक्षित) (अनकेक्षित) 0 0 0 (44.53) (39.57) (4.82) (44.53) (39.57) (4.82) (32.95) (29.54) (3.57) (32.95) (29.54) (3.57) (32.95) (29.54) (3.57) (32.95) (29.54) (3.57) (32.95) (29.54) (3.57) (32.95) (29.54) (3.57) (32.95) (29.54) (3.57) (32.95) (29.54) (3.57) (32.95) (29.54) (3.57) (32.95) (29.54) (3.57) (32.95) (29.54) (3.57) (32.95) (29.54) (3.57) (30.01) (7.13) (0.01) (7.13) (0.01) (0.01) (7.13) (7.13) मौक्षा कौ गई तथा 9.2.2021 को आयोगि के लिये जहा भी जरूरी हुआ, तुलनगत्मक उ इरायि गये हैं। अपेक्षा 9.2.2021 को विनियमन 32 मरीक्षा भी गये हैं। अपेक्षा 9.2.2015 के विनियमन 32	(अनकेक्षित) (अनकेक्षित) (अनकेक्षित) (अनकेक्षित) 0 0 0 0 0 (44.53) (38.57) (4.82) (186.53) (44.53) (38.57) (4.82) (136.53) (32.95) (28.54) (3.57) (138.03) (32.95) (28.54) (3.57) (138.03) (32.95) (28.54) (3.57) (138.03) 28300 28500 5 28500 0 0 0 0 0 (0.01) (0.01) (7.13) (0.05) (0.01) (0.01) (7.13) (0.05) (0.01) (0.01) (7.13) (0.05) मौक्षा कौ गई तथा 9.2.2021 को आयोगित उनकी बैठक बैठक के लिये जहां भी जरूरी हुआ, तुलननात्मक आंकड़े पुनवर्गीवृ श्रिक इस्तुत प्रार बीनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्व महीने के परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही	(अनकेक्षित) (अनकेक्षित) (अनकेक्षित) (अनकेक्षित) (अनकेक्षित) 0 0 0 0 0 0 (44.53) (38.57) (4.82) (186.53) (15.81) (44.53) (38.57) (4.82) (186.53) (15.81) (44.53) (38.57) (4.82) (138.03) (11.70) (32.95) (28.54) (3.57) (138.03) (11.70) (32.95) (28.54) (3.57) (138.03) (11.70) 28500 28500 5 28500 5 0 0 0 0 0 (0.01) (7.13) (0.05) (23.40) (0.01) (7.13) (0.05) (23.40) (0.01) (7.13) (0.05) (23.40) (10.01) (7.13) (0.05) (23.40) (10.01) (7.13) (0.05) (23.40) (11.70) (0.01) (7.13) (0.05) (23.40) (11.70) (0.05)